



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1283]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 26, 2006/कार्तिक 4, 1928

No. 1283]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 26, 2006/KARTIKA 4, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1822(अ).—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के कॉलम (3) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा कथित सारणी के कॉलम (4) में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः

सारणी

क्रम सं०	संस्था का नाम	परियोजना अथवा स्कीम और उसकी अनुमानित लागत	धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि
1.	2.	3.	4.
1.	आदिवासी महिला विकास समिति, ग्राम फूलडूंगरी, पो0आ0 घाटशिला, जिला पूर्वी	अनार्थों के लिए घर परियोजना	वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-2008 और 2008-09

	सिंहभूम, (झारखंड) - 832303		अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 4.88 करोड़ रुपए ।
2.	बारासत कैंसर रिसर्च एंड वेलफेयर सेंटर, बारासत, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल-700124.	“ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ ओनकोलाजी” क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए 25 बिस्तरों वाले कैंसर अस्पताल का 100 बिस्तरों कैंसर अस्पताल का 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की कैंसर की जाँच और उपचार हेतु सभी आधुनिक सुविधाओं की क्षमता में विस्तार ।	वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-2008 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 86.68 करोड़ रुपए ।
3.	एडाप्ट, 606 अंसल भवन, 16 के०जी० मार्ग, नई दिल्ली-110001	(i) सैनिटेशन प्रोजेक्ट सुविधा (ii) हेल्थ प्रोजेक्ट धड़कन	वित्तीय वर्ष 2006-2007 और 2007-08, और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2,07,55,000/- रुपए ।
4.	केयरिंग क्रास सोसायटी, सामने, ए आर टी सी (असम राइफल्स ट्रेनिंग कैम्प) थर्ड माइल, दीमापुर 797112, नागालैंड	400 बिस्तरों का अस्पताल	वित्तीय वर्ष, 2006-2007 और 2007-08 के लिए 12 करोड़ रुपए चूंकि वित्तीय वर्ष 2005-06 पहले ही समाप्त हो चुका है और कोई दान उस वित्तीय वर्ष के लिए इकट्ठा नहीं किया जा सका ।
5.	अभिनव शेतकरी शिक्षण मंडल, अभिनव एजुकेशन कैम्पस, अभिनव विद्यामंदिर लेन, गोडदेव, भायंदर (पूर्व) जिला ठाणे, महाराष्ट्र-401105	अभिनव वरिष्ठ और कनिष्ठ कॉलेज और अभिनव विद्या मंदिर	वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-08 अर्थात् मात्र दो वर्षों की अवधि के लिए 49.51 करोड़ रुपए ।

6.	पार्क मेडिकल रिसर्च सोसायटी, 4 गोकुल टैरेस, कोलकाता- 700017	पार्क मेडिकल रिसर्च सोसायटी के लिए अस्पताल परियोजना, पार्क क्लिनिक	वित्तीय वर्ष 2006- 2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् तीन वर्षों की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपये
7.	दी हिमालयन स्कूल सोसायटी, 15 ए अमृत कौर रोड देहरादून, उत्तरांचल-248001	हिमज्योति स्कूल	वित्तीय वर्ष 2006- 2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् तीन वर्षों की अवधि के लिए 4 करोड़ रुपये ।
8.	सोशल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, साईकुल बाजार, साईकुल, टी डी ब्लॉक, सदर हिल्स, जिला सेनापति, मणिपुर	भेड़ पालन	वित्तीय वर्ष 2006-2007 और 2007-08 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 1.56 करोड़ रुपये ।
9.	गुडविल फाउन्डेशन, ए-44, चानमारी आइजोल-796007, मिजोरम	महिलाओं के नेतृत्व के माध्यम से ग्रामीण आजीविका जीवन में सुधार	वित्तीय वर्ष 2006- 2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 2.32 करोड़ रुपये ।
10.	इंडियन स्पाइनल इंजरीस सेन्टर, सेक्टर सी, वसंत कुंज, नई दिल्ली 110070	हिमालयन ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल योजना (पहियों पर अस्पताल)	वित्तीय वर्ष 2006- 2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 14 करोड़ रुपये ।
11.	बिहार समाज कल्याण संस्थान, हवाई नगर, रोड सं० 8, ओ हटिया, रांची 834003, झारखंड	मुफ्त वृद्धाश्रम का संचालन एवं रखरखाव	वित्तीय वर्ष 2006- 2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल

			तीन वर्षों के लिए 2.47 करोड़ रुपए ।
12.	विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट, कोकामथान, तालुका, कोपरगांव, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र)	ओम गुरुदेव ग्रामीण अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र	वित्तीय वर्ष 2006-2007 और 2007-08, 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 21.99 करोड़ रुपए ।
13.	श्री कैलाश मठ, भक्तिधाम, पेठरोड, पंचवटी, नासिक, 422003, महाराष्ट्र	आदिवासीमित्र (आदिवासियों भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए एकीकृत कार्यक्रम)	वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-08 और 2008-09 अर्थात् केवल तीन वर्षों के लिए 3.71 करोड़ रुपए ।

2. यह अधिसूचना उक्त सारणी में क्रम सं० 4, 5 पर उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006-07, और 2007-2008 के संबंध में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी और क्रम सं० 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 और 13 में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2006-2007, 2007-2008 और 2008-2009 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 289/2006/फा. सं. एनसी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1822(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, hereby approves the institutions mentioned in column (2) of the Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof as mentioned in column (3) of the said Table and also specifies in the column (4) of the said Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as deduction under the said section 35AC, namely:-

TABLE

Serial Number	Name of the Institution	Project or scheme and estimated cost thereof	Maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Adivasi Mahila Vikas Samiti, Village Phuldungri, PO:	Orphans' home project.	Rs. 4.88 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.

Ghatsila, District: East
Singhbhum
(Jharkhand) -832303.

2. Barasat Cancer Research & Welfare Centre, Barasat, North 24 Paraganas- 700124, West Bengal. "Netaji Subhash Chandra Bose Institute of Oncology" - An extension of cancer hospital from 25 bedded to 100 bedded capacity with all modern facilities of cancer detection and treatment for the economically weaker patients of the area. Rs.86.68 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.
3. ADOPT, 606, Ansal Bhawan, 16, KG Marg, New Delhi 110001. (i) Sanitation Project SUVIDHA. Rs. 2,07,55,000/- for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.
(ii) Health Project DHARKAN
4. Caring Cross Society, Opp. ARTC (Assam Rifles Training Camp), 3rd Mile, Dimapur- 797112, Nagaland. 400 bedded hospital. Rs. 12 crore for financial year 2006-07 and 2007-08 as the financial year 2005-06 is already over and no donation can be collected for that financial year.
5. Abhinav Shetkar, Shikshan Mandal, Abhinav Education Campus, Abhinav Vidya Mandir Lane, Goddeo, Bhayandar (East) District Thane - 401105, Maharashtra. Abhinav Senior & Junior College and Abhinav Vidhya Mandir. Rs. 49.51 crore for financial years 2006-07 and 2007-08 i.e for two years only.
6. Park Medical Research Society, 4 Gorky Terrace, Kolkata - 700 017. Hospital Project Park Clinic of Park Medical Research Society. Rs. 5 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.
7. The Himalayan School Society, 15 A Amrit Kaur Road, Dehradun, Uttaranchal -248001. Him Jyoti School. Rs. 4 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.

8	Social Development Organisation, Saikul Bazar, Saikul, T.D. Block, Sadar Hills, Senapati district, Manipur.	Goat farming.	Rs. 1.56 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.
9	Goodwill Foundation, A-44, Chanmari, Aizawl -796007, Mizoram.	Rural livelihood improvement through women led initiative.	Rs. 2.32 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.
10	Indian Spinal Injuries Centre, Sector C, Vasant Kunj, New Delhi 110070.	The Himalayan Rural Health Care Scheme (Hospital on Wheels).	Rs. 14 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.
11	Vihar Samaj Kalyan Sansthan, Hawai Nagar, Road No.8, .O. Hatia, Ranchi 834003, Jharkhand.	Running & maintenance of free old age home.	Rs. 2.47 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.
12	Vishwatmak Jangli Maharaj Ashram Trust, Kokamthan, Tal. Kopargaon, District Ahmednagar (Maharashtra).	Om Gurudev Rural Hospital and Research Centre.	Rs. 21.99 crore for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.
13	Shri Kailash Math, Bhaktidham, Pethroad, Panchwati, Nasik -422003, Maharashtra.	Adiwasimitra (integrated programme for tribal food, health & education).	Rs. 3.71 crore including a corpus fund of Rs. 9.70 lakh for financial years 2006-07, 2007-08 and 2008-09 i.e for three years only.

2. This notification shall remain in force for a period of two years in relation to financial year 2006 – 2007 and 2007-2008 in respect of projects or schemes mentioned at serial number 4, 5 and for a period of three years in relation to financial years 2006-2007, 2007-2008 and 2008-2009 in respect of projects or schemes mentioned at serial numbers 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12 and 13 of the said Table.

[No. 289/2006/F No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1823(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 373 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इंपैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, मार्फत यू एन डी पी, रवीन्द्र मैनसेन, दिनशा वाचा रोड, मुम्बई -400034 द्वारा “लाइफ लाईन- एक्सप्रेस” (चलता फिरता अस्पताल) को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 1 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंपैक्ट इंडिया फाउन्डेशन, मार्फत यू एन डी पी, रवीन्द्र मैनसेन, दिनशा वाचा रोड, मुम्बई - 400034 द्वारा चलाई जा रही “लाइफ लाईन- एक्सप्रेस” (चलता फिरता हस्पताल) की परियोजना या स्कीम को 351.02 लाख रुपए की अनुमोदित लागत (119.19 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित) में बिना कोई परिवर्तन के अर्थात् वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 290/2006/फा. सं. एनसी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1823(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.373(E) dated the 19th March, 2004 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for Running of ‘Lifeline Express’ (the hospitals on wheels.) by Impact India Foundation, C/o UNDP, Ravindra Mansion, Dinsha Vachiha Road, Mumbai-400034 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Running of 'Lifeline Express' (the hospitals on wheels.) which is being carried out by Impact India Foundation, C/o UNDP, Ravindra Mansion, Dinsha Vachha Road, Mumbai-400034, without any change in the approved cost of Rs. 351.02 lakhs (including a corpus fund of Rupees 119.19 lakhs), as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 290/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

क्र.आ. 1824(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं० सं० आ० 549 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री अपंग अभ्युदय मंडल, सोला गांधीनगर हाइवे, न्यू हाई कोर्ट-सोला के सामने, अहमदाबाद द्वारा गाँव सोला, दासकरोई ताल्लुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात में स्कूल, छात्रावास के लिए भवन तथा आवसीय क्वार्टरों के निर्माण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 10 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2000 की अधिसूचना सं० 570 (अ०) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं० 782 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना लागत को "32.47 लाख रुपए" से संशोधित कर "100.00 लाख रुपए" करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए :-

(क) श्री अपंग अभ्युदय मंडल, सोला गांधीनगर हाइवे, न्यू हाई कोर्ट-सोला के सामने, अहमदाबाद द्वारा गाँव सोला, दासकरोई ताल्लुक, जिला अहमदाबाद, गुजरात में चलाई जा रही स्कूल, छात्रावास के लिए भवन तथा आवासीय क्वार्टरों के निर्माण की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2007-2008 से आरंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 2 जुलाई, 1998 की अधिसूचना सं०सा०आ० 549(अ०) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं० 10 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कालम (4) में “32.47 लाख रुपए” के अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “100.00 लाख रुपए” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 291/2006/फा. सं. एनसी-274/03/2006]
सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1824(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.549(E) dated the 2nd July, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 10, for Construction of building for school, hostel and residence quarters at Village Sola, Daskroi Taluk, District Ahmedabad, Gujarat, by Shri Apang Abhyudaya Mandal, Sola Gandhinagar Highway, Opp. New High Court-Sola, Ahmedabad as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.570(E) dated the 20th June, 2000 for a period of three year beginning with assessment year 2002-2003 and which was extended further vide notification number S.O.782(E) dated the 5th July, 2004 for a period of three year beginning with financial year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years and amending the project cost from “Rs.32.47 lakhs” to “Rs. 100.00 lakhs”;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

- (a) hereby specifies the scheme or project for Construction of building for school, hostel and residence quarters at Village Sola, Daskroi Taluk, District Ahmedabad, Gujarat, which is being carried out by Shri Apang Abhyudaya Mandal, Sola Gandhinagar Highway, Opp. New High Court-Sola, Ahmedabad as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2007-2008; and
- (b) further amends the said notification number S.O. 549(E) dated the 2nd July, 1998, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 10, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.32.47 lakhs", the letters, figures and word "Rs. 100.00 lakhs" shall be substituted.

[No. 291/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1825(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 जून, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 399 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सर्वोदय आरोग्य निधि, हाइवे, राधनपुर (बनासकाँठा), गुजरात-385340 द्वारा राधनपुर, गुजरात तथा राजस्थान स्थित सर्वोदय नेत्र अस्पताल/ नेत्र कैंम्पो के लिए नेत्र ऑपरेशन, उपस्करों/उपकरणों की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० 869 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 531 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोदय आरोग्य निधि, हाइवे, राधनपुर (बनासकाँठा), गुजरात-385340 द्वारा राधनपुर, गुजरात तथा राजस्थान स्थित सर्वोदय नेत्र अस्पताल / नेत्र कैंम्पो के लिए नेत्र ऑपरेशन, उपस्करों/उपकरणों की चलाने की परियोजना या स्कीम को 67.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 292/2006/फा. सं. एनसी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1825(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.399(E) dated the 6th June, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Eye operation, equipments/instrument for Sarvoday Eye Hospital/Eye Camps at Radhanpur, Gujarat and Rajasthan, by Sarvoday Arogya Nidhi, Highway, Radhanpur, (Banas Kantha), Gujarat-385340, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.869(E) dated the 21st September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.531(E) dated the 9th May, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Eye operation, equipments/instrument for Sarvoday Eye Hospital/Eye Camps at Radhanpur, Gujarat and Rajasthan which is being carried out by Sarvoday Arogya Nidhi, Highway, Radhanpur, (Banas Kantha), Gujarat-385340, without any change in the approved cost of Rs.67.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 292/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1826(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जुलाई, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 521 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ दि क्रिपल्ड (शिशु और वयस्क) अगरीपाडा म्युनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, मुल्तीवाई स्ट्रीट, बम्बई -400001 द्वारा (क) सोसायटी फॉर दि एजुकेशन ऑफ दि क्रिपल्ड सेन्टर फॉर इन्डिपेन्डेन्ट लिविंग की साजसज्जा तथा उसको चलाने (ख) एन्टाप हिल स्कूल की साज-सज्जा तथा उसको चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 14 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना सं० 216 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे

बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 21 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 859 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 526 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 526 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 81.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 175.00 लाख रुपये कर दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोसायटी फॉर एजुकेशन ऑफ दि क्रिपल्ड (शिशु और वयस्क) अगरीपाडा म्यूनििसीपल स्कूल बिल्डिंग, मुल्सीवाई स्ट्रीट बम्बई -400001 द्वारा (क) सोसायटी फॉर दि एजुकेशन ऑफ दि क्रिपल्ड सेन्टर फॉर इन्डिपेन्डेन्ट लिविंग की साजसज्जा तथा उसको चलाने (ख) एन्टाप हिल स्कूल की साज-सज्जा तथा उसको चलाने की परियोजना या स्कीम को 175.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 293/2006/फा. सं. एनसी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1826(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.521(E) dated the 14th July, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 8, for (a) Furnishing and running of Society for the Education of the Crippled Centre for Independent living; (b) Furnishing and running of Society for the Education of the Crippled, Antop Hill School, by Society for Education of the Crippled (Child and Adult), Agripada Municipal School Building, Multivai Street, Bombay-400001, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996 which was extended further *vide* notification number S.O. 216(E) dated the 17th March, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further *vide* notification number S.O. 859(E) dated the 21st September, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further *vide* notification number S.O. 526(E) dated the 9th May, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And, whereas, by notification number S.O.526(E) dated the 9th May, 2003 the estimated cost was enhanced from Rs. 81.50 lakhs to Rs. 175.00 lakhs;

And, whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And, whereas, the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for (a) Furnishing and running of Society for the Education of the Crippled, Centre for Independent living; (b) Furnishing and running of Society for the Education of the Crippled, Antop Hill School, which is being carried out by Society for Education of the Crippled (Child and Adult), Agripada Municipal School Building, Multivai Street, Bombay-400001, without any change in the approved cost of Rs.175.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 293/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1827(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 का ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 901 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मदर कृष्णाबाई रुरल डवलपमेंट ट्रस्ट, रामनगर, आनंदाश्रम पो०आ०, कान्हागढ़-671531, केरल द्वारा केरल के कासरगद, जिला तथा देश के अन्य भागों में निराश्रितों के लिए रैन बसेरा, कुओं, शौचालयों के निर्माण तथा कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए अन्य संस्थाओं को सहायता की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-03 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 23 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं० सां० आ० 376 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से ती वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि दिनांक 22 जनवरी, , 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 65 (अ०) अनुमानित लागत को 55.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 130.00 लाख रुपये किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को “ 130.00 लाख रुपए” से संशोधित कर “ 200.00 लाख रुपए” करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) मदर कृष्णाबाई रूरल डवलपमेंट ट्रस्ट, रामनगर, आनंदाश्रम पो० आ०, कान्हागढ़-671531, केरल द्वारा केरल के कासरगड, जिला तथा देश के अन्य भागों में निराश्रितों के लिए रैन बसेरा, कुओं, शौचालयों के निर्माण तथा कल्याणकारी कार्यकलापों के लिए अन्य संस्थाओं को सहायता की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 901(अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 4 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में “ 130.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 200.00 लाख रुपये ” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 294/2006/फा. सं. एनसी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1827(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.901(E) dated the 20th September, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, for Construction of Shelter for the homeless, wells, lavatory and assistance to other institutions for welfare activities at Kasargod District Kerala and other parts of the country, by Mother Krishnabai Rural Development Trust, Ramnagar, Anandashram P.O., Kanhangad-671531, Kerala as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 which was extended further vide notification number S.O.376(E) dated the 23rd March, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005;

And whereas by notification number S.O.65(E) dated the 22nd January, 2003 the estimated cost was enhanced from Rs.55.00 lakhs to Rs.130.00 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from "Rs.130.00 lakhs" to "Rs. 200.00 lakhs";

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

(a) hereby specifies the scheme or project for Construction of Shelter for the homeless, wells, lavatory and assistance to other institutions for welfare activities at Kasargod District Kerala and other parts of the country, which is being carried out by Mother Krishnabai Rural Development Trust, Ramnagar, Anandashram P.O., Kanhangad-671531, Kerala as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007; and

(b) further amends the said notification number S.O.901(E) dated the 20th September, 2001, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 5, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word "Rs.130.00 lakhs", the letters, figures and word "Rs. 200.00 lakhs" shall be substituted.

[No. 294/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1828(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं० सां० आ० 373 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ए सी आई एल नवसृजन रुरल डेवलपमेंट फाउन्डेशन(अनारदे फाउन्डेशन) केयर ऑफ एजिस लॉजिस्टिक्स लि०, चौथा तल, बलदाता भवन, 117, एम०के० रोड, मुम्बई-400020 द्वारा संसाधनों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबों, निर्जनों की आय बढ़ाने तथा प्रबन्धन एवं नेटवर्किंग और समायोजन की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-04 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 6 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और परियोजना लागत को “ 707.25 लाख रुपए” से संशोधित कर “ 1000.00 लाख रुपए” करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) ए सी आई एल नवसृजन रुरल डेवलपमेंट फाउन्डेशन (अनारदे फाउन्डेशन) केयर ऑफ एजिस लॉजिस्टिक्स लि०, चौथा तल, बलदाता भवन, 117, एम०के० रोड, मुम्बई-400020 द्वारा संसाधनों को बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबों, निर्जनों की आय बढ़ाने तथा प्रबन्धन एवं नेटवर्किंग और समायोजन की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 373 (अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 6 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि संबंधी कॉलम (4) में “707.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये ” अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

[सं. 295/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1828(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.373(E) dated the 19th March, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Socio-Economic development of rural areas through leveraging of resources income generation for poor, wasteland & management and networking and linkages, by ACIL Navasarjan Rural Development Foundation (AnaRDe Foundation), C/o Aegis Logistics Ltd. 4th Floor, Baldota Bhavan, 117, M.K. Road, Mumbai-400020 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and amending the project cost from “Rs.707.25 lakhs” to “Rs. 1000.00 lakhs;”

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

(a) hereby specifies the scheme or project for Socio-Economic development of rural areas through leveraging of resources income generation for poor, wasteland & management and networking and linkages, which is being carried out by ACIL Navasarjan Rural Development Foundation (AnaRDe Foundation), C/o Aegis Logistics Ltd. 4th Floor, Baldota Bhavan, 117, M.K. Road, Mumbai-400020 as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007; and

(b) further amends the said notification number S.O.373(E) dated the 19th March, 2004, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 6, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word, “Rs.707.25 lakhs”, the letters, figures and word “Rs. 10 crores” shall be substituted.

[No. 295/2006/F. No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

341146/106-3

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.भा. 1829(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं० सां० आ० 267 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अलर्ट इंडिया (एसोसिएशन फॉर लीप्रेसी एजुकेशन रिहेबीलीटेशन एंड ट्रीटमेंट-इंडिया) 6 बी, मुख्याध्यपक भवन, तीसरा तल, रोड सं० 24, सॉयन (प०) बम्बई-400022 द्वारा (क) ग्रेटर बम्बई तथा नई बम्बई स्थित शहरी कुष्ठ रोग नियंत्रण परियोजनाओं के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों, (ख) नई बम्बई स्थित टी०बी० नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत टी०बी०नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत टी०बी० रोगियों का पता लगाने, उपचार तथा इलाज के लिए तथा (ग) ऐरोली, बम्बई स्थित एकीकृत स्वास्थ्य देखरेख परियोजना को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 17 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं० 217 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 305 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, और जिसे बाद में दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 683 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि दिनांक 6 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं० सां० आ० 21 (अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 190.32 लाख रुपये से बढ़ाकर 270.02 लाख रुपये कर दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलर्ट इंडिया (एसोसिएशन फॉर लीप्रेसी एजुकेशन रिहेबीलीटेशन एंड ट्रीटमेंट-इंडिया) 6 बी, मुख्याध्यपक भवन, तीसरा तल, रोड सं० 24, सॉयन (प०) बम्बई-400022 द्वारा (क) ग्रेटर बम्बई तथा नई बम्बई स्थित शहरी कुष्ठ रोग नियंत्रण परियोजनाओं के अन्तर्गत कुष्ठ रोगियों, (ख) नई बम्बई स्थित टी०बी० नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत टी०बी०नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत टी०बी० रोगियों का पता लगाने, उपचार तथा इलाज के लिए तथा (ग) ऐरोली, बम्बई स्थित एकीकृत स्वास्थ्य देखरेख की परियोजना को चलाने की परियोजना या स्कीम को 270.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 296/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1829(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.267(E) dated the 29th March, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 17, for Detection, treatment and cure of- (a) leprosy patients under urban Leprosy Control Projects at Greater Bombay and New Bombay; (b) T.B. patients under T.B. Control Project at New Bombay; and (c) Running of Integrated health care project at Airoli, Bombay, by ALERT-INDIA (Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment-India), 6B, Mukhyadhyapak Bhavan, 3rd Floor, Road No.24, Sion (W), Bombay-400022, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1995-1996 which was extended further vide notification number S.O.217(E) dated the 17th March, 1997 for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.305(E) dated the 29th March, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O.683(E) dated the 13th June, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas by notification number S.O.21(E) dated the 6th January, 1995 the estimated cost was enhanced from Rs.190.32 lakhs to Rs.270.02 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Detection, treatment and cure of- (a) leprosy patients under urban Leprosy Control Projects at Greater Bombay and New Bombay; (b) T.B. patients under T.B. Control Project at New Bombay; and (c) Running of Integrated health care project at Airoli, Bombay which is being carried out by ALERT-INDIA (Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment-India), 6B, Mukhyadhyapak Bhavan, 3rd Floor, Road No.24, Sion (W), Bombay-400022, without any change in the approved cost of Rs.270.02 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 296/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1830(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 मई, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 604 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने वनराय ट्रस्ट, आदित्य रेजीडेंसी, 498, पार्वती, मित्रमंडल चौक पुणे-411009 की आदर्श ग्राम परियोजना को वित्तीय वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 6 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह सलाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वनराय ट्रस्ट, आदित्य रेजीडेंसी, 498, पार्वती, मित्रमंडल चौक पुणे-411009 द्वारा चलाई जा रही आदर्श ग्राम परियोजना की परियोजना या स्कीम को 111.96 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 297/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1830(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.604(E) dated the 20th May, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 6, for Ideal Village project by Vanarai Trust, Aditya Residency, 498, Parvati, Mitramandal Chowk, Pune-411009 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Ideal Village project which is being carried out by Vanarai Trust, Aditya Residency, 498, Parvati, Mitramandal Chowk, Pune-411009, without any change in the approved cost of Rs. 111.96 crores, as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 297/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1831(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 68(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने आर०एन०एस० ट्रस्ट, नवीन काम्प्लेक्स, सं० 14, एम० जी० रोड, बंगलोर-560001 द्वारा अस्पताल भवन की आंतरिक साजसज्जा और अंतिम रूप देना, मेडिकल उपकरणों/उपकरणों की खरीद की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 6 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आर०एन०एस० ट्रस्ट, नवीन काम्प्लेक्स, सं० 14, एम० जी० रोड, बंगलोर-560001 द्वारा अस्पताल भवन की आंतरिक साजसज्जा और अंतिम रूप देना, मेडिकल उपकरणों/उपकरणों की खरीद की परियोजना या स्कीम को 864.40 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 298/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1831(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.68(E) dated the 14th January, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Interior decoration and finishing of hospital building, purchase of medical equipments/instruments etc. by R.N.S. Trust, Naveen Complex, No.14, M.G. Road, Bangalore-560001 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Interior decoration and finishing of hospital building, purchase of medical equipments/instruments etc. which is being carried out by R.N.S. Trust, Naveen Complex, No.14, M.G. Road, Bangalore-560001, without any change in the approved cost of Rs. 864.40 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 298/2006/F. No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1832(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 901 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री चन्द्राचार्या धर्मार्थ चिकित्सालय ट्रस्ट, अमरकंटक, जिला सहडोल (मध्य प्रदेश) द्वारा अमरकंटक, जिला सहडोल (मध्य प्रदेश) में श्री चन्द्राचार्या चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर में औजारों, वेन, रोगी वाहन की खरीद साजसज्जा और त्वचा, कैंसर जैसी बिमारियों के लिए जड़ी बुटियों और आयुर्वेदिक दवाइयों में अनुसंधान केन्द्र और चिकित्सा सेवाओं को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 14 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं० 143 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से एक वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के चार वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह सम्बन्ध हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चन्द्राचार्या धर्मार्थ चिकित्सालय ट्रस्ट, अमरकंटक, जिला सहडोल (मध्य प्रदेश) द्वारा अमरकंटक, जिला सहडोल (मध्य प्रदेश) में श्री चन्द्राचार्या चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर में औजारों, वेन, रोगी वाहन की खरीद साजसज्जा और त्वचा, कैंसर जैसी बिमारियों के लिए जड़ी बुटियों और आयुर्वेदिक दवाइयों में अनुसंधान केन्द्र और चिकित्सा सेवाओं को चलाने की परियोजना या स्कीम को 227.72 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 299/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1832(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.901(E) dated the 20th September, 2001, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 14, for Purchase of equipments, van, ambulance, furnishing and running of medical services and research in herbal and ayurvedic medicines, diseases such as cancer, skin diseases etc. of Shri Chandracharya Charitable Hospital & Research Centre at Amarkantak, District Shahdol (Madhya Pradesh), by Shri Chandracharya Dharmarth Chikitsalaya Trust, Amarkantak, District Shaldol (Madhya Pradesh), as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 which was extended further vide notification number S.O.143(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of one year beginning with financial year 2005-2006 ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond four years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Purchase of equipments, van, ambulance, furnishing and running of medical services and research in herbal and ayurvedic medicines, diseases such as cancer, skin diseases etc. of Shri Chandracharya Charitable Hospital & Research Centre at Amarkantak, District Shahdol (Madhya Pradesh) which is being carried out by Shri Chandracharya Dharmarth Chikitsalaya Trust, Amarkantak, District Shaldol (Madhya Pradesh), without any change in the approved cost of Rs. 227.72 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 299/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1833(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 54 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने शुभम करोटी, 52/1, रामो हल्ली, कंजरी, बंगलौर द्वारा रामो हल्ली, कंजरी बंगलौर दक्षिण, कर्नाटक राज्य में पुनर्वास केन्द्र और स्कूल को चलाने तथा भवन निर्माण, औजारों की खरीद, साजसज्जा की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 18 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० 542 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के

रूप में बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं० 220 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शुभम करोठी, 52/1, रामो हल्ली, कंजरी, बंगलौर द्वारा चलाई जा रही रामो हल्ली, कंजरी बंगलौर दक्षिण, कर्नाटक राज्य में पुनर्वास केन्द्र और स्कूल को चलाने तथा भवन निर्माण, औजारों की खरीद, साजसज्जा की परियोजना परियोजना या स्कीम को दो करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 300/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1833(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.54(E) dated the 16th January, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 18, for Construction of building, purchase of equipments, furnishing and running of school and rehabilitation centre at Ramo Halli, Kengeri, Bangalore South, Karnataka State, by Shubham Karothi, 52/1, Ramo Halli, Kengeri, Hobli, Bangalore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.542(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O.220(E) dated the 23rd February, 2004 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction of building, purchase of equipments, furnishing and running of school and rehabilitation centre at Ramo Halli, Kengeri, Bangalore South, Karnataka State which is being carried out by Shubham Karothi, 52/1, Ramo Halli, Kengeri, Hobli, Bangalore, without any change in the approved cost of rupees two crores, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 300/2006/F No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1834(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 461(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 49-50, रेडक्रास हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा (क) पश्चिम भारत वर्षा पर निर्भर खेती की परियोजना (ख) पूर्वी भारत वर्षा पर निर्भर खेती की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 10 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण विकास ट्रस्ट, 49-50, रेडक्रास हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा चलाई जा रही (क) पश्चिम भारत वर्षा पर निर्भर खेती की परियोजना (ख) पूर्वी भारत वर्षा पर निर्भर खेती की परियोजना या स्कीम को (5 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 9.60 करोड़ रुपये) की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 301/2006/फा. स. एन सं-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1834(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.461(E) dated the 5th April, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 10, for (a) Western India Rainfed farming project, (b) Eastern India Rain fed farming project by Gramin Vikas Trust, 49-50, Red Cross House, Nehru Place, New Delhi-110019 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2003-2004;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for (a) Western India Rainfed farming project, (b) Eastern India Rain fed farming project which is being carried out by Gramin Vikas Trust, 49-50, Red Cross House, Nehru Place, New Delhi-110019, without any change in the approved cost of Rs. 9.60 crores (including a corpus fund of Rupees 5 crores), as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 301/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1835(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं० सां० आ० 68(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने दीपालय, 46, संस्थागत क्षेत्र, डी ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 द्वारा मेवात के ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के लिए डिस्पेन्सरी के भवन का निर्माण, फर्नीचर और वैन उपकरणों की खरीद और स्वास्थ्य परियोजनाओं को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 10 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दीपालय , 46 औद्योगिक क्षेत्र, डी ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 द्वारा चलाई जा रही मेवात के ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों के लिए डिस्पेन्सरी के भवन का निर्माण, फर्नीचर और दैन उपकरणों की खरीद और स्वास्थ्य परियोजनाओं या स्कीम को 97.18 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 302/2006/का. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप-सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1835(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.68(E) dated the 14th January, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 10, for Construction of building for dispensary, purchase of furniture and equipments, van & running of health project for villagers in rural area of Mewat, by Deepalaya, 46, Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction of building for dispensary, purchase of furniture and equipments, van & running of health project for villagers in rural area of Mewat which is being carried out by Deepalaya, 46, Institutional Area, D-Block, Janakpuri, New Delhi-110058, without any change in the approved cost of Rs.97.18 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 302/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1836(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 20 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 591 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने बी.डी.पटेल जनरल हस्पताल, उमरेठ, निकट बस स्टैंड, डाकेर रोड, तालुक-आनंद, खेडा, गुजरात-388220 द्वारा उमरेठ, तालुका-आनंद, जिला खेडा, गुजरात में बी.डी.पटेल जनरल अस्पताल को चलाने और उपकरणों/उपकरणों, वाहन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए

एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं० 299(अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की अधिसूचना सं० 532 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बी.डी.पटेल जनरल हस्पताल, उमरेठ, निकट बस स्टैंड, डाकेर रोड, तालुक-आनंद, खेडा, गुजरात-388220 द्वारा उमरेठ, तालुका-आनंद, जिला खेडा, गुजरात में बी.डी.पटेल जनरल अस्पताल को चलाने और उपकरणों/उपस्करों, वाहन की परियोजना या स्कीम को 20.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 73.50 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती

[सं. 303/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1836(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.591(E) dated the 20th August, 1997, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Instrument/equipments, vehicle and running of B.D. Patel General Hospital at Umreth, Taluka-Anand, District Kheda, Gujarat by B.D. Patel General Hospital, Umreth, Near Bus Stand, Daker Road, Taluk-Anand, Kheda, Gujarat-388220 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999 which was extended further vide notification number S.O.299(E) dated the 29th March, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O.532(E) dated the 9th May, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Instrument/equipments, vehicle and running of B.D. Patel General Hospital at Umreth, Taluka-Anand, District Kheda, Gujarat which is being carried out by B.D. Patel General Hospital, Umreth, Near Bus Stand, Daker Road, Taluk-Anand, Kheda, Gujarat-388220, without any change in the approved cost of Rs. 73.50 lakhs, plus a corpus fund of rupees Rs. 20.00 lakhs as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 303/2006/F.No.NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1837(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (i) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 25 मई, 2005 की अधिसूचना सं० सां० आ० 708 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम्मीद खन्ना फाउन्डेशन, 2, शेंटी फार्म, गांव साहूरपुर, चंदनहोला, नई दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य देखरेख की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नाम और पते में उम्मीद खन्ना फाउन्डेशन, 2 शेंटी फार्म, गांव साहूरपुर, चंदनहोला, नई दिल्ली 30 से बदलकर “उम्मीद, 208-216 डी डी ए कमर्शियल काम्पलेक्स, अरविन्दो, प्लेस मार्केट, हौज खास, नई दिल्ली-110016” संशोधित करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

(क) एतद्वारा उम्मीद खन्ना फाउन्डेशन, 2, शांति फर्म, गांव साहूरपुर, चंदनहोला, नई दिल्ली, द्वारा स्वास्थ्य देखरेख की परियोजना या स्कीम को पात्र परियोजना या

स्कीम के रूप में अनुमोदित लागत 4.50 करोड़ रुपये में बगैर कोई परिवर्तन किए विनिर्दिष्ट करती है ; और

(ख) दिनांक 25 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं० सां० आ० 708 (अ०) में और आगे निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 5 के सामने सारिणी में, उक्त सारिणी के कालम (2) में उससे संबंधित प्रविष्टि हेतु निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामतः

“ उम्मीद, 208-216, डी० डी० ए० वाणिज्यिक परिसर, अरबिन्दो प्लेस मार्केट, हाउज खास, नई दिल्ली-110016”

[सं. 304/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1837(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.708(E) dated the 25th May, 2005, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified a serial number 5, for Health care project by Umeed Khanna Foundation, 2, Shanty Farms, Village Sahoarpur, Chandan Hola, New Delhi, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2005-2006;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for amending the name and address from “Umeed Khanna Foundation, 2, Shanty Farms, Village Sahoarpur, Chandan Hola, New Delhi 30” to “Umeed, 208-216, DDA Commercial Complex, Aurobindo Place Market, Hauz Khas, New Delhi-110016”;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

(a) hereby specifies the scheme or project for Health care project, which is being carried out by Umeed Khanna Foundation, 2 Shanty Farms, Village Sahoarpur, Chandan Hola, New Delhi without any change in the approved cost of Rs.4.50 crores; and

(b) further amends the said notification number S.O.708(E) dated the 25th August, 2005, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 5, for the entry relating thereto in column (2) of the said Table, the following entry shall be substituted, namely :-

“Umeed, 208-216, DDA Commercial Complex, Aurobindo Place Market, Hauz Khas, New Delhi-110016”

[No. 304/2006/F. No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1838(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं० सं० आ० 228 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अंकलेश्वर इंडस्ट्रीयल एंड रूरल डवलपमेंट सोसाइटी, के-1/205, जी आई डी सी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पोस्ट बॉक्स नं० 24, अंकलेश्वर-393002 द्वारा अंकलेश्वर के आस पास के पचास गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद सुविधा के विकास और विस्तार (स्कूल भवन के निर्माण, शिक्षा केन्द्र और उपस्करों, चलते फिरते शिक्षा वाहन, उपस्करों, चलती फिरती चिकित्सा इकाइयों अस्पताल भवन और व्यवसाय जनित बीमारियों की रोकथाम व इलाज और ग्राउंड ट्रैक तथा ओडिटोरियम/स्टेडियम सहित स्कूल में कमरों के माध्यम से) की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1994-1995 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 5 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 19 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं० 218 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं० 216 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं० 162 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था; जिसे बाद में दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० 894 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था;

और जबकि दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं० 894(अ०) द्वारा अनुमानित लागत को 600.00 लाख रूपए से संशोधित करके 100 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 600.00 लाख रूपए कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तेरह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंकलेश्वर इंडस्ट्रीयल एंड रूरल डवलपमेंट सोसाइटी, के-1/205, जी आई डी सी इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पोस्ट बॉक्स नं० 24, अंकलेश्वर-393002 द्वारा चलाई जा रही

अंकलेश्वर के आस पास पचास के गांवों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा और खेलकूद सुविधा के विकास और विस्तार (स्कूल भवन के निर्माण, शिक्षा केन्द्र और उपस्करों, चलते फिरते शिक्षा वाहन, उपस्करों, चलती फिरती चिकित्सा इकाइयों अस्पताल भवन और व्यवसाय जनित बीमारियों की रोकथाम व इलाज और ग्राउंड ट्रैक तथा ओडिटोरियम/स्टेडियम सहित स्कूल में कमरों के माध्यम से की परियोजना या स्कीम को 100.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 600.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 305/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1838(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.228(E) dated the 17th March, 1994, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 5, for Development and extension of educational, medical and sports facilities to rural areas (through construction of school building, centre of education and rooms in schools with provision of equipment, mobile educational van, hospital building with equipment, mobile medical unit and prevention and cure of occupational diseases and ground tracks and auditorium/stadium) in 50 village around Ankleshwar by Ankleshwar Industrial and Rural Development Society, K-1/205, GIDC Industrial Estate, Post Box No.24, Ankleshwar-393002 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1994-1995 which was extended further vide notification number S.O.218(E) dated the 19th March, 1996 for a period of two years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.216(E) dated the 16th March, 1998 for a period of two years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.162(E) dated the 23rd February, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 which was extended further vide notification number S.O.894(E) dated the 5th August, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas by notification number S.O.894(E) dated the 5th August, 2003 the estimated cost was amended from Rs.600.00 lakhs to Rs.600.00 lakhs including a corpus fund of Rs.100 lakhs;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond thirteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Development and extension of educational, medical and sports facilities to rural areas (through construction of school building, centre of education and rooms in schools with provision of equipment, mobile educational van, hospital building with equipment, mobile medical unit and prevention and

cure of occupational diseases and ground tracks and auditorium/stadium) in fifty villages around Ankleshwar which is being carried out by Ankleshwar Industrial and Rural Development Society, K-1/205, GIDC Industrial Estate, Post Box No.24, Ankleshwar-393002, without any change in the approved cost of Rs. 600.00 lakhs including a corpus fund of Rs. 100.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 305/2006/F.No.NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1839(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं० सां० आ० 469 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री हरी पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, 5/ए, कृष्णा सोसाइटी, निकट लॉ गार्डन, एलीसब्रिज, अहमदाबाद - 6 द्वारा सचिना सब-पंचायत, गाँव हरीपुर तालुक विरमगाम जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी सुख-सुविधाओं सहित आँखों के हस्पताल और वृद्धाश्रम के निर्माण, उपस्करों की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1997-1998 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 7 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 18 नवम्बर, 1999 की अधिसूचना सं० 1145 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० 1131 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरी पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, 5/ए, कृष्णा सोसाइटी, निकट लॉ गार्डन, एलीसब्रिज, अहमदाबाद - 6 द्वारा चलाई जा रही सचिना सब-पंचायत, गाँव हरीपुर तालुक विरमगाम जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी सुख-सुविधाओं सहित आँखों के हस्पताल और वृद्धाश्रम के निर्माण, उपस्करों की परियोजना या स्कीम को 87.52 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 306/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1839(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Construction, equipments with all amenities of Vrudhashram and Eye Hospital at Sachina Sub-Panchayat, Village Haripur Taluk Viramgam, District Ahmedabad, Gujarat by Shri Hari Public Charitable Trust, 5/A, Krishna Society, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-6 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998 which was extended further vide notification number S.O.1145(E) dated the 18th November, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 and which was extended further vide notification number S.O.1131(E) dated the 29th September, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004 ;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of two years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction, equipments with all amenities of Vrudhashram and Eye Hospital at Sachina Sub-Panchayat, Village Haripur Taluk Viramgam, District Ahmedabad, Gujarat which is being carried out by Shri Hari Public Charitable Trust, 5/A, Krishna Society, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-6, without any change in the approved cost of Rs. 87.52 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of two years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 306/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1840(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० सां० आ० 850(अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात कैंसर सोसायटी, न्यू सिविल अस्पताल कैम्पस, असरवा, अहमदाबाद-380016 द्वारा नये सिविल हस्पताल कैंपस, असरवा अहमदाबाद, गुजरात में कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त उपचार की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट किया था और जिसे बाद में दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 की अधिसूचना सं० सां० आ० 1250 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण से तीन वर्षों की अवधि के लिए क्रम सं० 1 पर आगे बढ़ाया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात कैंसर सोसायटी, न्यू सिविल अस्पताल कैम्पस, असरवा, अहमदाबाद-380016 द्वारा चलाई जा रही नये सिविल हस्पताल कैम्पस, असरवा अहमदाबाद, गुजरात में कैंसर रोगियों के लिए मुफ्त उपचार की परियोजना या स्कीम को 611.00 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 307/2006/फा. सं. एन सी-274/03/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2006

S.O. 1840(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.850(E) dated the 21st September, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 1, for Project for free treatment for cancer patients at New Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-380016, Gujarat, by the Gujarat Cancer Society, New Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-380016, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002 and which was extended further vide notification number S.O.1249(E) dated the 30th October, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Project for the treatment for cancer patients at New Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-380016, Gujarat which is being carried out by the Gujarat Cancer Society, New Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad-380016, without any change in the approved cost of Rs.611.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2006-2007.

[No. 307/2006/F.No. NC-274/03/2006]

SUNIL CHANDER SHARMA, Dy. Secy. (National Committee)